

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - षष्ठ

दिनांक -28 - 08- 2021

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज संयुक्त क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे।

संयुक्त क्रिया की परिभाषा

संयुक्त क्रिया ऐसे किया है, जो किन्ही दो क्रियाओं के मिलने से पर बनती है। ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं।

दूसरे शब्दों में कहें, तो जब दो तरह की क्रिया मिलकर किसी तीसरे नई क्रिया का अविष्कार करती हो, तो वह नई किया संयुक्त क्रिया के नाम से जानी जाएगी।

संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण:

- सीता स्कूल चली गई।
- वह पढ़ चुका है।
- तुम महाभारत पढ़ने लगे थे।
- प्रियंका ने लस्सी पी लिया।

ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में जैसा कि आप ने समझा की वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया नहीं है, यहां पर दो अलग-अलग क्रियाएं मिलकर एक नई क्रियाका निर्माण कर रही है।

जैसे कि: लस्सी को पीना एवं ले लेना को जोड़कर पी लिया शब्द का उपयोग किया गया है, वहीं पढ़ने में लगना जोर का पढ़ने लगी शब्द का निर्माण किया। जो कि एक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं।

- राधा नाचने लगी।
- मोहन स्कूल से लौट आया।

- राम रौने लगा।
- प्रीति घर पहुँच गई।
- विद्यालय में पढ़ना लिखना होता है।
- कभी लोग पढ़ाई कर चुके।

ऊपर दिए उदाहरणों में देखा कि वाक्यों में सिर्फ एक क्रिया प्रयोग नहीं की गई है। एक क्रिया ने दूसरी क्रिया के साथ मिलकर नयी क्रिया का निर्माण किया गया है।

जैसे: रौना और लगना मिलकर रौनी लगा, नई क्रिया का निर्माण किया। पहुँच और जाना यह दोनों मिलकर नई क्रिया का निर्माण किया उधार संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं।

संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। और दूसरी क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जोड़कर इसके अर्थ में विश्लेषण डाल देती है।

उदाहरण: मोहन बाहर से आ गया।

इस वाक्य में 'आ' मुख्य क्रिया है तथा 'गया' रंजक क्रिया है। दोनों के लिए आए मिलकर संयुक्त क्रिया 'आना' का अर्थ को बता रही है।

आज्ञा और विधि को हटाकर या छोड़ कर सभी क्रियापद दो या अधिक क्रियाओं के योग से ही बनते हैं। परंतु संयुक्त क्रियाएं सबसे अलग हैं, क्योंकि इस क्रिया में एक और असाधारण क्रियापद 'हो', 'रौ', 'सौ', 'का' इत्यादि। धातु से मिलकर बनते हैं। वहां दूसरी ओर संयुक्त क्रियाएं 'पाना', 'पड़ना', 'डालना', 'सकना', 'चुकना', 'लगना', 'करना', 'भेजना', 'चाहना', 'हौना', 'आना-जाना', 'रहना', 'रखना', 'उठाना', 'लेना' आदि क्रियाएं के योग से बनती है।

गृहकार्य

लिखकर याद करें।